



असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 248] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 28, 1978/पाँच 7, 1900

No. 248] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 1978/PAUSA 7, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 8 :ईडोसो/पोएन/78

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1978

विषय :— 1979 वर्ष के दौरान चीनी के निर्यात के लिए नीति।

[मिसिल सं० 28/24/78-ई० 1]—उपर्युक्त विषय पर वाणिज्य विभाग के निर्यात (नियंत्रण)  
आदेश सं० ई (सी) प्रो०, 1977/एएम (83), दिनांक 28 दिसम्बर, 1978 की ओर ध्यान  
दिलाया जाता है।

2. सरकार द्वारा यह निश्चय किया गया है कि चीनी के निर्यात की अनुमति केवल भारत  
के राज्य व्यापार निगम लि० और चीनी के कारखानों को कुछे मामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत  
ही जाएगी। चीनी के कारखाने स्वयं अपने उत्पादन में से निर्यात करेंगे। संबंध संधिबाण 31  
जनवरी, 1979 तक भारत के राज्य व्यापार निगम लि० के पास पंजीकृत होनी चाहिए। अतः

निर्यात नीति 1978-79 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंगे :—

क्रम सं०	पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधन
1.	18	क्रम सं० 33, कालम 3	विद्यमान प्रविष्टि इस प्रकार पढ़ने के लिए संशोधित की जाएगी :— “खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अन्तर्गत पोतलदान के लिए निर्यात 30 जून, 1979 तक निम्न द्वारा अनुमय होगा (1) भारत के राज्य व्यापार निगम लि०; और (2) चीनी के कारखाने स्वयं अपने उत्पादन में से संबंधित सन्दिष्ट 31 जनवरी, 1979 से पूर्व ही भारत के राज्य व्यापार निगम लि० के पास संशोधित होनी चाहिए।”
2.	39	अनुबन्ध-1. क्रम सं० 8	विद्यमान प्रविष्टि हटा दी जाएगी।

का० वें० सेबाद्री, मुख्य निबंधक, आयात-निर्यात

# MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

## EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 81-ETC (PN)/78

New Delhi, the 28th December, 1978.

SUB : Policy for export of sugar during the year 1979.

[F. No. 28/24/78-EL.]—Attention is invited to the Department of Commerce, Exports (Control) Order, No. E(C)O, 1977 /AM(83) dated 28th December, 1978, on the above subject.

2. It has been decided by the Government that export of sugar will be allowed under OGL 3 by State Trading Corporation of India Ltd., and by Sugar factories only. Sugar factories will export sugar themselves from their own production. The relevant contracts should be registered by them with State Trading Corporation of India Ltd., not later than 31st January, 1979. Therefore, following amendment shall be made in the Export Policy, 1978-79 :

S. No.	Page No.	Reference	Amendment
1.	18	S. No. 33 Col. 3	The existing entry shall be amended to read as under : — “Export will be allowed for shipment upto 30th June, 1979, under O. G. L. 3 by ; (i) the State Trading Corporation of India Ltd., and (ii) the sugar factories themselves from their own production; the relevant contracts should be registered by them with the State Trading Corporation of India Ltd., not later than 31st January, 1979”.
2.	39	Annexure I Sl. No. 8	The existing entry shall be deleted.

K. V. SESHADRI, Chief  
Controller of Imports & Exports.